

No. of Printed Pages : 6

BLIE-229

**BACHELOR'S DEGREE IN LIBRARY
AND INFORMATION SCIENCE**

(REVISED)

Term-End Examination

December, 2023

BLIE-229 : ICT IN LIBRARIES

Time : $1\frac{1}{2}$ Hours

Maximum Marks : 35

Note : *The question paper is in two Parts. Attempt*

all Parts as per instructions given therein.

Illustrate your answers with suitable

examples and diagrams, wherever necessary.

Write the relevant question number before

writing the answer.

P. T. O.

[2]

BLIE-229

Part—I

(3×5=15)

*Note : Answer any **three** of the following questions
in about **250** words each.*

1. Discuss the latest trends in library automation.
2. Discuss the workflow of an automated-acquisition system.
3. Describe the major and special features of evergreen.
4. Discuss *five* generations of library automation packages.
5. Discuss the functional features and metadata management in D-Space.

Part—II

(5×4=20)

*Note : Write short notes on any **five** of the following
in about **150** words each.*

6. *Three* eras of library system

7. Automated *vs.* Digital library system
8. Web-scale library management
9. Audio/Video compression
10. Greenstone user interface
11. Principles of open source software
12. WEBLIS
13. Article indexing

BLIE-229

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि

(संशोधित)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2023

बी.एल.आई.ई.-229 : पुस्तकालयों में सूचना संचार

एवं प्रौद्योगिकी

समय : $1\frac{1}{2}$ घण्टे

अधिकतम अंक : 35

नोट : प्रश्नपत्र दो भागों में विभाजित है। दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी भागों को हल कीजिए। जहाँ कहीं आवश्यक हो समुपयुक्त उदाहरणों और आरेखों से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखने से पहले सम्बन्धित प्रश्न संख्या अवश्य लिखिए।

नोट : किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर लगभग **250** शब्दों
(प्रत्येक) में दीजिए।

1. पुस्तकालय स्वचालन की नवीनतम प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए।
2. स्वचालित अधिग्रहण प्रणाली के कार्यप्रवाह की विवेचना कीजिए।
3. 'एवरग्रीन' की प्रमुख एवं विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
4. पुस्तकालय स्वचालन पैकेजों की **पाँच** पीढ़ियों की विवेचना कीजिए।
5. डी-स्पेस में मेटाडेटा प्रबंधन एवं इसकी क्रियात्मक विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ

लिखिए (प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में) :

6. पुस्तकालय प्रणाली के तीन युग
7. स्वचालित **बनाम** डिजिटल पुस्तकालय प्रणाली
8. वेबस्तरीय पुस्तकालय प्रबन्धन
9. दृश्य/श्रव्य संपीडन
10. ग्रीनस्टोन उपयोक्ता अंतराफलक
11. मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के सिद्धान्त
12. वेबलिस (WEBLIS)
13. लेख अनुक्रमणीकरण